

दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए
To be submitted in Duplicate

स्टेट बैंक आफ पटियाला/STATE BANK OF PATIALA

शाखा/Branch

क्रमांक/No.

दिनांक/Date

ज्वॉइंट स्टॉक कम्पनी के शेयरों और बीमा पॉलिसियों के एवज ओवरड्राफ्ट

OVERDRAFT AGAINST JOINT STOCK COMPANY SHARES AND INSURANCE POLICIES

1. ऋणी(यों) के नाम/Name(s) of Borrower(s)
2. पता/Address
3. क्या नया ऋण है अथवा नवीनीकरण
Whether new advance or renewal
नवीनीकरण की दशा में/In case of renewal
नया अग्रिम/नवीनीकरण/New Advance/renewal
लिमिट रु०/Limit Rs.
वृद्धि/Increased कमा/decreased रु./from
Rs.
नोट : रुपये की लिमिट मूल रूप से प्रधान कार्यालय पत्र संख्या
दिनांक को स्वीकृत की गई और इसका अन्तिम नवीनीकरण/स्वीकृति प्रधान
कार्यालय पत्र क्रमांक दिनांक द्वारा किया गया।
Note : Limit of Rs. was originally sanctioned on
vide H.O. Letter No. dated 19 and was last renewed/sanctioned
vide H.O. Letter No. of 19
4. व्याज दर/Rate of interest
5. ऋण का उद्देश्य/Purpose of advance
6. अवधि जिसके लिए ऋण की आवश्यकता है
Period for which advance is required
7. अदायगी (किस प्रकार प्रस्तावित है)/Repayment (how proposed ?)
8. यदि कोई अन्य लिमिट है तो उसका विवरण
Particulars of any other limit, if any
9. प्रतिभूतियां/Securities पूर्णतः प्रदत्त शेयर/बीमा पॉलिसियां अनुलिखित अनुसार
Fully paid shares/insurance policies as under

क/अ शेयर/Shares

कम्पनी का नाम Name of the company	शेयरों की विशिष्ट संख्या/Distinctive no. of shares	क्या शेयर इक्विटी है अथवा अधिमाती Whether equity or preference ?	बाजार मूल्य Market value	मार्जिन Margin	अग्रिम मूल्य Advance value

र.बैं.प./S.B.P. 607

ख/B बीमा पालिसियां/Insurance Policies

पालिसी संख्या Policy No.	पालिसी की राशि Amount of Policy	पालिसी की देय तिथि Policy due on	अभ्यर्ण मूल्य Surrender value	माजिन Margin	अग्रिम मूल्य Advance value

ऋण पर रिपोर्ट (हैसियत साख माजिन को बनाए रखने हेतु इत्यादि/Report on Borrower(s) (Means standing to restore margins etc.)

टिप्पणी/सिफारिश/Remarks/ReCommendations

प्रबन्धक/Manager

प्रमाण पत्र/CERTIFICATES

क/A (शेयरों हेतु)/(For Shares)

प्रमाणित किया जाता है कि/Certified that :-

1. पीछे लिखे विवरण अनुसार शेयर नाम से जारी है ।
The shares detailed overleaf stand in the name of
2. अन्तरण विलेखों के कोरे, हस्ताक्षरित, दिनांक रहित द्वारा
सम्यक हस्ताक्षरित सेट प्राप्त किए जाएंगे/प्राप्त कर लिये गए हैं ।
Bank, signed, undated sets of transfer deeds will be/have been obtained duly signed by
3. बैंक की निर्देश पुस्तिका के अध्याय 12 के पैराग्राफ 32 में दर्शाए निर्देशानुसार शेयरों पर बैंक के धारणाधिकार सम्बन्धी नोटिस सम्बद्ध कम्पनियों को भेजे गए हैं ।
Notices of the Banks lien on the shares have been sent to Companies concerned in the manner indicated in Paragraph 32, Chapter 12 of the Book of Instructions.
4. सभी शेयर पूर्णतः प्रदत्त तथा तत्काल बिक्री योग्य है ।
All shares are fully paid and readily marketable.
5. आहरण शक्तियां प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर समय समय पर परिशोधित होंगी ।
Drawing power will be revised from time to time based on prevailing market rates.
6. सम्बद्ध स्थानीय प्रधान कार्यालय से इस तथ्य की पुष्टि कर ली गई है कि शेयरों का प्रतिग्रहण बैंकिंग कम्पनी अधिनियम 1949 की धारा 19(2) के किसी भी उपबन्ध का उल्लंघन नहीं करता ।
Confirmations have been obtained from the concerned Local Head offices to the effect that acceptance of the shares does not contravene provision of Section 19(2) of the Banking Companies Act, 1949.
- 7.
- 8.

प्रबन्धक/Manager

ख/B बीमा पालिसियों हेतु/(For insurance policies)

प्रमाणित किया जाता है कि/Certified that

1. पीछे लिखे विवरण के अनुसार बीमा पालिसियां नाम से जारी हैं तथा पूर्णतः प्रवृत्त हैं, आयु स्वीकार कर ली गई है तथा बैंक के पक्ष में समुनदेशन बीमा कम्पनी (यों) के पास पंजीकृत किया गया है।
The insurance policies detailed overleaf stand in the name of and are in full force age has been admitted and assignment in the Bank' favour have been registered with the insurance company/ies.
2. पालिसियां विवाहित महिला सम्पत्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रभावित नहीं है।
The policies have been effected under the Married Women's property Act.
3. बैंक की निर्देश पुस्तिका के अध्याय 11 के पैराग्राफ 5 (ए से जी तक) में उल्लिखित सम्बद्ध अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा।
The relevant instructions contained in paragraph 5(a to g) Chapter XI of Book of instructions will be followed.
4. प्रीमियम के भुगतान से सम्बन्धित स्थायी अनुदेश ले लिए गए हैं तथा सम्यक रूप से अभिलिखित हैं।
Standing instructions regarding payment of premia have been obtained and dully recorded.
5. संयुक्त खातों हेतु/for joint accounts.
स्टाम्पित फार्म एस.बी.ओ.पी. 260 प्राप्त कर लिया गया है।
From SBOP 260 dully stamped has been obtained.
- 6.
- 7.

प्रबन्धक/Manager

(नाम/Name)

प्रधान कार्यालय में प्रयोग हेतु/For use at Head Office

क्रमांक/No.

दिनांक/Date

के अधधीन रु. (रुपये

की ओवरड्राफ्ट लिमिट स्वीकृत की गई।

Overdraft limit of Rs. (Rupees

Sanctioned Subject to

आंचलिक प्रबन्धक/क्षेत्रीय प्रबन्धक
Zonal Manager/Regional Manager